

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1981/पौष 15, 1902
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1981/PAUSA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(साह्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1981

सा. का. नि. 7(अ)/आव. बसु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, गन्ना की आधारिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो गन्ना की 8.5 प्रतिशत या उससे कम बसुली से संबद्ध है और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बसुली की वृद्धि पर 15.2841 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, गन्ना की उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्धारित कड़ाह प्रक्रिया वाले बीपी कारखानों के स्वामियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा कारखाने के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र

पर परिदत्त गन्ना के लिए, चीनी वर्ष 1980-81 के लिए 30 सितम्बर, 1981 तक मंदेय होगा किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए मंदेय रिबेंट के अधीन होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	कारखाने का नाम	गन्ना की प्रति क्विंटल कीमत लायों में
1.	श्री महुआ प्रसाद सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि., पो. आ. जेरवारा, जिला सूरत (गुजरात)।	13.00
2.	दि मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लि., बारलाई (कशीपरा), जिला इन्दौर (म.प्र.)।	13.00

[सं. 3-1/80-एस. पी. वाई(डी-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 1981

G.S.R. 7(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugar at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the prices specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule, or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1980-81 until the 30th September, 1981, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1.	Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandi Ltd., P.O. Zetvavra, District Surat (Gujarat).	13.00
2.	The Malwa Sahakari Shakkar Karkhana Limited, Barlai (Kshipra), District Indore (Madhya Pradesh).	13.00

[No. 3-1/80-SPY(D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar)